

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(For Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) suspense account)

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules') notified by the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 7th September 2016.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all Share in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and protection Fund (IEPF) Suspense Account.

In terms of the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the aforesaid IEPF Rules, the Company is required to transfer the shares in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Hence, a list of shareholders whose dividend(s) are not encashed and due for transfer to IEPF is displayed on the website at www.bel-india.com and shareholders are requested to refer web-link <http://www.bel-india.com/ContentPage.aspx?MId=17&CId=463&LId=1&link=463>. Further, the Company has sent individual communication to the shareholders concerned whose shares are liable to be transferred to IEPF for taking appropriate action.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose Shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original Share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account pursuant to the Rules.

In case the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Integrated Enterprises (India) Limited (RTA), does not receive any communication from the concerned shareholders by 5th December 2016 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements as set out in the IEPF Rules, transfer the shares to IEPF Suspense Account by the due date as per procedure stipulated in the rules and no claim shall thereafter lie against the Company. However, those shareholders can claim back the shares along with unclaimed dividend from IEPF Authority after following due procedure prescribed in the said Rules.

In case, the shareholders have any queries on the subject matter and the rules, they may contact the company's Registrar and Transfer Agent at: M/s Integrated Enterprises (INDIA) Ltd., #30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003; Tel: 080-23460815 to 818; E-mail ID: irg@integratedindia.in.

For Bharat Electronics Limited

Sd/-

S Sreenivas

Company Secretary

Date: 24th November, 2016

Place: Bengaluru

Ahmedabad

शेयरधारकों के लिए सूचना

(निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) उचित खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए)

यह सूचना दिनांक 7 सितंबर 2016 को प्रभावी कारपोरेट द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकार (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ('आईईपीएफ नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तारतम्य में प्रकाशित किया जाता है।

अन्य विषयों के साथ इस नियम में यह प्रावधान है कि शेयरधारक द्वारा सात वर्षों की अवधि के लिए या उससे अधिक अवधि तक जो शेयर दावा रहित/अदत्त लाभांश है, उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के उचित खाता में अंतरित करना होता है।

उपरोक्त (आईईपीएफ) नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2016 के धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को उचित खाता में कंपनियों द्वारा अदत्त लाभांश खाते को अंतरित धनराशि तथा सात वर्षों की अवधि के लिए जिसका दावा नहीं किया गया / अदत्त है, अंतरित करना होता है। अतः उन शेयरधारकों की सूची जिनका लाभांश का नकदी नहीं किया गया है एवं आईपीएफ अंतरण के लिए शेष है, बीईएल के वेबसाइट www.bel-india.com पर प्रकाशित किया गया है तथा शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट <http://www.bel-india.com/ContentPage.aspx?Mid=17&Id=463&Lid=1&link=463> का संदर्भ लें। आगे, उपरोक्त कार्रवाई हेतु सभी संबंधित शेयरधारकों को जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, कंपनी द्वारा व्यक्ति

रूप से जानकारी दी गई है।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और आईपीएफ उचित खाते में जिनके शेयरों को अंतरित किया जा सकता है, उन संबंधित शेयरधारक द्वारा नोट किया जाए कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ उचित खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र कंपनी द्वारा जारी की जाएगी तथा जारी करने की स्थिति में उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे तथा अपराक्राम्य माने जाएंगे। आगे, शेयरधारक यह भी नोट करें कि नियमों के अनुसार डुप्लीकेट आईईपीएफ आईईपीएफ उचित खाते में अंतरण के प्रयोजन के लिए डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों के जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर, अपलोड किए गए विवरण पर ध्यान दें तथा यह पर्याप्त सूचना मानी जाएगी।

कंपनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसेज इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज (इंडिया) (आरटीए) द्वारा 5 दिसंबर 2016 अथवा बढ़ाई जाने वाली ऐसी किसी अन्य तिथि तक संबंधित शेयरधारकों द्वारा यदि कोई संप्रेषण प्राप्त नहीं होता है, नियमों के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईपीएफ उचित खाते में उल्लिखित आवश्यकताओं में अनुपालन की दृष्टि से नियत तिथि तक आईपीएफ उचित खाते में शेयरों का अंतरण किया जाएगा तथा तत्पश्चात कंपनी द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बहरहाल, कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन कर शेयरधारक दावा रहित लाभांश के साथ अपने शेयरों को आईपीएफ प्राधिकार से दावा कर सकते हैं। इस विषय तथा नियमों पर शेयरधारकों की किसी पूछताछ के लिए निम्न पते पर संपर्क करें - कंपनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसेज इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज (इंडिया) लि. # 30, रमना रेंसिडेन्सी, 4वां क्रॉस, सीफो रोड, मलेश्वरम, बेंगलूरु - 560 003; दूरभाष: 080-23460815 से 818; ई-मेल आईडी: irg@integratedindia.in

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
हस्ताक्षर
एस. श्रीनिवास
कंपनी सचिव

दिनांक: 24 नवंबर, 2016
स्थान: बेंगलूरु



भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
CIN: L32309KA1954GOI000787
BHARAT ELECTRONICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(For Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) suspense account)

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules') notified by the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 7th September 2016.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all Share in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and protection Fund (IEPF) Suspense Account.

In terms of the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the aforesaid IEPF Rules, the Company is required to transfer the shares in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Hence, a list of shareholders whose dividend(s) are not encashed and due for transfer to IEPF is displayed on the website at www.bel-india.com and shareholders are requested to refer web-link <http://www.bel-india.com/ContentPage.aspx?MId=17&CId=463&LId=1&link=463>. Further, the Company has sent individual communication to the shareholders concerned whose shares are liable to be transferred to IEPF for taking appropriate action.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose Shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original Share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account pursuant to the Rules.

In case the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Integrated Enterprises (India) Limited (RTA), does not receive any communication from the concerned shareholders by 5th December 2016 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements as set out in the IEPF Rules, transfer the shares to IEPF Suspense Account by the due date as per procedure stipulated in the rules and no claim shall thereafter lie against the Company. However, those shareholders can claim back the shares along with unclaimed dividend from IEPF Authority after following due procedure prescribed in the said Rules.

In case, the shareholders have any queries on the subject matter and the rules, they may contact the company's Registrar and Transfer Agent at: M/s Integrated Enterprises (INDIA) Ltd., #30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003; Tel: 080-23460815 to 818; E-mail ID: irg@integratedindia.in.

For Bharat Electronics Limited
Sd/-

S Sreenivas
Company Secretary

Date: 24th November, 2016
Place: Bengaluru

Printed and published by B A Ravi on behalf of TI
Phone: 25880000; Fax: 25880664

Bengaluru

